

Earning from Loans

When a prospect comes to your office/shop for loan requirements, our system validates whether or not the person is eligible for the loan based on income and liability. This is called viability report. This report is free.

If viability report is good, then system verify the CIBIL report of the person. We charge 100 Rs from you for doing this and you can charge 500 Rupees from the customer. If CIBIL Score is greater than 550, then you can collect the required document from the person & upload on our CRM software. No need to collect the physical documents only soft-copies. If a loan is sanctioned then you get desired commissions.

So, loan is approved or not, you can earn $500-100 = 400$ Rs from each customer.

जब ऋण loan आवश्यकताओं के लिए आपके कार्यालय / दुकान में कोई customer आता है, तो हमारी system यह सत्यापित करती है कि व्यक्ति आय और खर्चों के आधार पर ऋण के लिए पात्र है या नहीं। इसे व्यवहार्यता Validity रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट निशुल्क है।

यदि व्यवहार्यता Validity रिपोर्ट अच्छी है, तो सिस्टम व्यक्ति की CIBIL रिपोर्ट को सत्यापित करेगा। ऐसा करने के लिए हम आपसे 100 रुपये लेते हैं और आप ग्राहक से 500 रुपये ले सकते हैं। यदि CIBIL स्कोर 550 से अधिक है, तो आप व्यक्ति से आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर सकते हैं और हमारे CRM सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर सकते हैं। यदि कोई ऋण लोन स्वीकृत हो जाता है तो आपको वांछित कमीशन मिल जाता है।

तो, लोन approved स्वीकृत है या नहीं, आप प्रत्येक ग्राहक से $500-100 = 400$ रुपये कमा सकते हैं।

Loan Application Table

Loan Application	Number of Application	Commission	Commission Earned
Home Loan	10	400	₹ 4,000.00
Personal Loan	10	400	₹ 4,000.00
Business Loan	5	400	₹ 2,000.00
Loan Against Property	5	400	₹ 2,000.00
Total Commission	12,000 Rs		

Total Income without Loan Sectioned = **12,000 Rs**

Note: There is no loan sanctioned till this stage.

Now, out of those applications, only 4 loans are sanctioned.

Loan Sanctioned Table

Loan Application	Sanctioned	Amount	Commission	Commission Earned
Home Loan	2	50,00,000	0.3%	₹ 15,000.00
Personal Loan	1	500000	0.75%	₹ 3,750.00
Business Loan	1	1000000	0.75%	₹ 7,500.00
Total Commission	26,000 Rs			

Your income with just 4 loan files sanctioned is **26,000 Rs**

With 30 applications & only 4 loan sanctioned, the income will be =12000 +
26000 = **38,000 Rs**

Action Plan to Earn from Loans

1. File 30 applications per month for earning from Loan Services.
2. Complete 1 required loan training which are free for our customers.
3. Complete lead generation trainings.
4. Monthly Income from loans = **38,000 Rs.**

1. लोन सर्विसेज से कमाई के लिए प्रति माह 30 लोगों का loan फाइल apply करें।
2. हमारे ग्राहकों के लिए Free ऋण प्रशिक्षण (Loan ट्रेनिंग) पूरा करें।
3. लीड जनरेशन ट्रेनिंग कम्पलीट करें ।
4. ऋणों Loan Business से मासिक आय = **38,000 रु**

